



**APPENDICES**

## **Appendix**

**List of Students**

**List of the tools:**

**Mental Health Battery For Students**

- **Hindi version**

**High School Adjustment Inventory**


- **Hindi version**

## List of Students

S.NO	Name of students(Early Adolescence)
1.	Vikas Yadav
2.	Anuj Jatav
3	Ritik Makwan
4	Rishika yadav
5	Hiba Khan
6	Sabila Fatima
7	Kajal Malviya
8	Ananya Yadav
9	Harshita Sahu
10	Aashriya Mariyum
11	Shrilekha Singh
12	Ayush Singh
13	AnanyaTomar
14	Mayank Seth
15	Rimsha Zama
16	Ritesh Malviya
17	Piyush Yadav
18	Pushpendra Singh
19	Arvind Sahu
20	Nawazish Ali
21	Tanushka Batham
22	Nandita Kushwah
23	Fatima Ansari
24	Zamiya Akbar
25	Salik Uddin
26	Soumil Batham
27	Syed Hussain
28	Dolly Batham
29	Saghrash Yadav
30	Abhisha Gautam
31	Mahivsh Singh
32	Zara Khan
33	Ashutosh Yadav
34	Swati Agarwal

## List of Students

S.NO.	Name of students(Late Adolescence)
1.	Yamini Singh
2.	Rajashree Nayak
3	Anumeha Dhakhare
4	Kirti chandal
5	Hussain khan
6	Twinkle Marg
7	Chandu Singh
8	Aditi Bindal
9	Aarti Yadav
10	Bhashkar Singh
11	Debasmita Mohanta
12	Ayush Singh
13	Kiran Prajapati
14	Priyanka Gupta
15	Vaishali Tomar
16	Prateek Saxena
17	Bhawni Singh
18	Pragya Pandey
19	Binta Rawat
20	Mayur Seth
21	Archana kataria
22	Sumit Jain
23	Anand kotharwar
24	Ankita singh
25	Dhanya Marg
26	Medha Jaiswal
27	Purnima Tripathy
28	Menu Yadav
29	Khushbu Singh
30	Shivani chobe
31	Vidhatri Singh
32	Nisha Chadak
33	Pooja Bhadoria
34	Sweta Khatari



Arun Kumar Singh (Patna)  
Alpana Sen Gupta (Patna)

Consumable Booklet

of

**M H B**

(Hindi Version)

कृपया निम्न सूचनाएँ भरिए—

नाम..... कक्षा.....

आयु..... लिंग.....

स्कूल/कॉलेज..... शहरी/ग्रामीण.....

Total Time : Part I to Part V : 25 मिनट (Approximate) ; Part VI : 10 मिनट (Fixed)

Qualitative Interpretation :

I : माता या पिता या दोनों की कुल आय : (क) रु. 50,000 प्रति माह से अधिक

(ख) रु. 25,000 से रु. 50,000 तक प्रति माह

(ग) रु. 10,000 से रु. 25,000 तक प्रति माह

(घ) रु. 5,000 से रु. 10,000 तक प्रति माह

(ड) रु. 5,000 से नीचे

II : पिता की शिक्षा :

(क) मैट्रिक या उससे कम

(ख) इंटर

(ग) स्नातक

(घ) स्नातकोत्तर

III : माता की शिक्षा :

(क) मैट्रिक या उससे कम

(ख) इंटर

(ग) स्नातक

(घ) स्नातकोत्तर

IV : परिवार में सदस्यों की कुल संख्या :

(क) 15 से ऊपर

(ख) 10 से 15 तक

(ग) 5 से 10 तक

(घ) 5 से कम

### SCORING TABLE

Part	I (ES)	II (OA)	III (AY)	IV (SI)	V (SC)	VI (IQ)	TOTAL
Raw Score							
Percentile							

Estd. 1983

© (0522) 354807

**ANKUR PSYCHOLOGICAL AGENCY**

22/481, INDIRA NAGAR, LUCKNOW - 226 016

## PART - I

## निर्देश (Instructions) :

आप दिये गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। प्रत्येक प्रश्न के सामने दो विकल्प 'हाँ' या 'नहीं' में से किसी एक के नीचे गले खाने में जिसे आप अपने लिये उपयुक्त एवं सही समझते हैं, उस पर सही (✓) का चिह्न लगा दें। किसी भी प्रश्न को न छोड़ें, आपके उत्तर गोपनीय (confidential) रखे जावेंगे।

क्र. सं.	कथन	हाँ	नहीं
1.	किसी व्यक्ति द्वारा आलोचना किये जाने पर आप क्या क्रोधित हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	कक्षा में यदि शिक्षक कुछ प्रश्न करते हैं और आप उसका जबाब नहीं दे पाते हैं तो क्या आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	परीक्षा में फेल हो जाने पर क्या आपको आत्महत्या करने का मन करता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	माता-पिता द्वारा हल्का डाँट देने पर भी क्या आप डर जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	साँप, छिपकिली या मकड़ी या अन्य समान जानवर देखने पर क्या आप काफी डर जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	गृह-कार्य (home work) नहीं करके जाने पर क्या आप भीतर-भीतर श्लुब्ध रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	क्या आप अपने दोस्त का कोई सामान या चीज चुराकर चुपचाप कक्षा में बैठे रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	क्या आपको अपने दोस्तों को भला-बुरा कहने में अच्छा लगता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	क्या आप किसी पल में अपने आप बहुत खुश हो जाते हैं एवं दूसरे पल में बहुत उदास हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	खेलने में हार जाने पर क्या आप अपने दोस्त को दोषी समझकर उसे भला-बुरा कहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	माता-पिता से पत्र-पसन्द चीज मिलने पर क्या आप खुश नजर आते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	घनिष्ठ दोस्त द्वारा निन्दा किये जाने पर क्या आप विचलित हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	विपरीत परिस्थिति के होने पर भी क्या आप अपना संतुलन बनाये रखते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	किसी व्यक्ति द्वारा जरा-सा भला बुरा कहे जाने पर आप क्रोधित हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	शिक्षक द्वारा अनुशासनहीनता के लिये डाँट जाने पर क्या आप काफी विचलित हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## PART - II

## निर्देश (Instructions) :

भाग - I के समान ही यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न के दो-दो उत्तर, अर्थात् 'हाँ' या 'नहीं' दिये गये हैं। आप दिये गए इन उत्तरों में से अपने लिए उपयुक्त उत्तर चुनकर उसके नीचे बने खानों में हाँ अथवा नहीं के नीचे सही (✓) का चिह्न लगा दें। किसी भी प्रश्न को न छोड़ें।

क्र. सं.	कथन	हाँ	नहीं
16.	क्या माता-पिता के साथ आपका सम्बन्ध परिवार के दूसरे सदस्यों की अपेक्षा बहुत अच्छा है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	अगर आप किसी दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या आपका मन घर पर नहीं लगता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	क्या आप अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करते समय बहुत आत्म सचेत हो जाते हैं।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	क्या आप किसी सामाजिक-कार्य का दायित्व लेने में सबसे अगुगे रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	क्या आपको रात में अक्सर नींद नहीं आती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	क्या आपकी अपने भाई-बहन से अक्सर किसी-न-किसी बात पर कहा-सुनी हो जाती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	क्या आपको लोगों से मिलना-जुलना बहुत पसन्द है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	क्या आपको अक्सर कब्जियत की शिकायत रहती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	क्या आपके मन में बेकार की बातें प्रायः आती रहती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	स्कूल या कालेज के वातावरण में क्या आप घुटन महसूस करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	क्या आपका घर का वातावरण शांतिपूर्ण है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	क्या आप नये लोगों से बहुत जल्दी मित्रता कर लेते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	क्या आपको अक्सर पाचन-संबंधी शिकायत रहती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	अगर कोई आपकी जरा-सी निन्दा करे तो क्या आप अपना संतुलन खो बैठते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	क्या आपको रोज स्कूल या कालेज जाने में अच्छा लगता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	क्या आप किसी कार्य को अपने माता-पिता की अनुमति के बिना नहीं करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	क्या आप दूसरे व्यक्ति से बिना झिझक सहायता लेते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	क्या आप पावर का चश्मा पहनते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	कोई अगर आपका अपमान करता है तो आप परेशान हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

क्र. सं.	कथन	हाँ	नहीं
35.	क्या आप अपने दोस्तों के साथ मिल-जुलकर कोई कार्य करना ज्यादा पसन्द करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि परिवार के लोग आपको कम चाहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	क्या आप किसी सामाजिक कार्य में प्रधान भूमिका अदा करना चाहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	क्या आपके शरीर में रक्त की कमी है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	क्या आप अपने को अक्सर असहाय महसूस करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	अगर आपके दोस्त के पास किताब नहीं होती है तो क्या आप उसे अपनी किताब देकर सहायता करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	अगर आपके माता-पिता बीमार पड़ जाते हैं तो क्या आप चिन्तित हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	अगर आप रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो क्या आप सहयात्रियों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	घर में झगड़ा होने से क्या आप उसे शान्त कराने की कोशिश करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	क्या आप अन्य व्यक्तियों के सामने वेड़िझड़क अपना विचार व्यक्त करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	किसी का खून बहते देखकर क्या आप घबड़ा जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	अगर आप किसी के घर जाते हैं तो क्या आप अपने मन पसन्द खाने की चीज नहीं मिलने पर ताना-वाना कसते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	वर्ग की प्रतियोगिताओं में क्या आप प्रायः आगे रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	क्या घर के लोग आपको उतना प्यार नहीं करते हैं जितना किया जाना चाहिए ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	कोई बात पसन्द नहीं आने पर भी क्या आप प्रायः चुप रह जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50.	क्या आप अपने पास-पड़ोस के लोगों का ख्याल रखते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51.	घर में उहने के बजाय क्या आपको दोस्तों के घर रहना ज्यादा अच्छा लगता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52.	अगर आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो क्या आप आसानी से वहाँ के माहोल या वातावरण में घुल-मिल जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.	क्या माता-पिता आपके द्वारा गलती किये जाने पर आपकी निन्दा भी करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	क्या आपको मकड़ी या छिपकली देखते ही अजीब-सी घबड़ाहट होती है..?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55.	अगर कोई आपके घर के विभिन्न कमरों को देखने की इच्छा प्रकट करता है तो क्या आप उनके इस विचार की प्रशंसा करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## PART - III

## निर्देश (Instructions) :

नीचे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ (situations) दी गई हैं जिनसे होकर प्रायः व्यक्ति अपने दिन-प्रतिदिन की जिंदगी में गुजरता है। आप इन परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह बताने की कोशिश करें कि यदि आप उस परिस्थिति में होते तो क्या करते ? आपका जवाब प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये दो उत्तरों में से किसी एक के रूप में होना चाहिए। अतः जो उत्तर आपको सही लगे उसके सामने बने खाने में सही (✓) का चिह्न लगा दें। किसी भी प्रश्न को न छोड़ें।

56. आप अपने दोस्त के साथ शाम को घूमने जा रहे हैं। उसी समय रास्ते में एक मुद्रा पर्स (money purse) गिरा हुआ मिलता है। उसमें कुछ रुपये थे और उस व्यक्ति का पता (address) भी। आपके दोस्त ने कहा "चलो इस रूपये से आज होटल में अच्छा-सा खाना खाये और उसके बाद सिनेमा चलें।" ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे ?

(क) दोस्त की बात मान लेंगे ?

(ख) दास्त के विचार से असहमति दिखायेंगे।

57. आपके माता-पिता चाहते हैं कि आप किसी चीज का व्यवसाय (business) करें ताकि अच्छा धन कमा सके। लेकिन आपकी इच्छा डाक्टर बनने की है ताकि लोगों की सेवा की जा सके, गरीब-दुखी का इलाज किया जा सके। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे ?

(क) पिता की बात से सहमति दिखायेंगे।

(ख) मेडिकल परीक्षा की तैयारी में जुट जायेंगे।

58. वर्ग में अगर दोस्तों के बीच बहुत झगड़ा होता है और मार-पीट की नौबत आ जाती है तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे ?

(क) झगड़ा शांत करने की कोशिश करेंगे।

(ख) चुपचाप तटस्थ रहकर मजा लेंगे।

59. आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है। आपके माता-पिता आपको पढ़ने में ज्यादा समय देने के लिए कहते हैं, परन्तु आपका ध्यान सिनेमा तथा खेल-कूद की ओर अक्सर चला जाता है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे ?

(क) माता-पिता की बात मुना-अनमुनी करेंगे ?

(ख) खेल-कूद तथा मनोरंजन के साधन में अभिरूचि दिखायेंगे ?

60. अगर राह चलते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना (accident) का शिकार हो जाता है और आप अचानक वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे ?

(क) व्यक्ति को किसी डाक्टर या अस्पताल में पहुँचाने की कोशिश करेंगे।

(ख) व्यक्ति को थोड़े देर तक देखकर फिर वहाँ से चल देंगे।

61. स्कूल से अगर आपकी बहन या भाई किसी का पेंसिल या रबर चुराकर लाता है तो आप उसे बहुत डाँटते हैं तथा उसे समझाते हैं कि चोरी करना बुरी आदत है। किसी की चीज चुराने से लोग उसे बुरा आदमी कहेंगे। लेकिन एक दिन आपका दोस्त कहीं से 500 रुपये चुराकर लाता है और आपके सामने रखते हुए कहता है "चलो हम लोग इस पैसे से मौज उड़ायें।" ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे ?
- (क) दोस्त को वैसा न करने के लिए समझायेंगे।
- (ख) दोस्त का साथ देंगे।
62. परीक्षा में अगर प्रश्न-पत्र बहुत कठिन आता है और आप उसका जवाब जानते हैं और आपके साथी आपसे कहते हैं कि जरा-सा उसे बता दो। दोस्ती के नाते आप सोचते हैं कि बता दें। लेकिन तुरंत आपके मन में यह बात आती है कि परीक्षा में चोरी करना या दूसरों को बताना या सहायता करना दोनों ही जुर्म है और वीक्षक (examiner) द्वारा पकड़े जाने पर वह कड़ी सजा भी पायेगा। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे ?
- (क) साहस करके दोस्त को यथासंभव मदद करेंगे।
- (ख) दोस्त को झिड़क देंगे।
63. घर में अगर किसी बात को लेकर आपके माता-पिता में झगड़ा होता है तो आप कुछ देर के लिए चिन्तित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करना चाहेंगे ?
- (क) माता या पिता या दोनों को चुप करायेंगे।
- (ख) डर से उनके पास न जायेंगे।
64. अगर वर्ग में नये शिक्षक आते हैं तो कुछ लड़के उनके पीछे लगते हैं तथा मुँह लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे ?
- (क) साथियों का साथ नहीं देंगे।
- (ख) साथियों को नये शिक्षक को तंग करने के लिये कुछ नयी तरकीब बतायेंगे।
65. अगर कुछ लड़के स्कूल के अनुशासन को भंग करते हैं और स्कूल से भागकर सिनेमा चले जाते हैं, और यदि यह बात आपको मालूम होती है तो आप क्या करेंगे ?
- (क) उन लड़कों के बारे में शिक्षक से शिकायत करेंगे।
- (ख) तटस्थ रहकर अपना कार्य करेंगे।
66. अगर आपके दोस्त के पिता बहुत बीमार हो जाय और उनके पास इलाज कराने को पैसा भी नहीं हो तो आप क्या करेंगे ?
- (क) दोस्त के पिता के लिए पैसे की जुगाड़ करेंगे।
- (ख) दोस्त को संतावना देते रहेंगे।

67. अगर बस (bus) में सफर करते समय कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कीमती सामान लेकर भागते समय पकड़ा जाता है तो आप क्या करेंगे ?

(क) चुपचाप ब्रेटकर तमाशा देखना पसन्द करेंगे।

(ख) उस व्यक्ति को सजा दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे।

68. अगर आपको पता चलता है कि आपके साथी के पास पढ़ने के लिए कोई भी किताब नहीं है और उसे पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन उसके गरीब पिता बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चलाते हैं तो आप ऐसी अवस्था में उस छात्र के साथ क्या करेंगे ?

(क) अपनी किताब उसे पढ़ने के लिये थोड़े समय के लिये दे देंगे।

(ख) उसे किताब दिलाने का वादा करेंगे।

69. वर्ग में शिक्षक के पढ़ाते समय अगर कोई लड़का उनके व्यवहारों की नकल छिपकर अपने अन्य साथियों को हँसाने के लिए करता है और आप उसे देख लेते हैं तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे ?

(क) उस लड़के को वैसा नहीं करने का इशारा करेंगे।

(ख) वर्ग में बीच में ही उठकर उसकी शिकायत शिक्षक से करेंगे।

70. नदी या सरोवर में नहाते समय अगर आप देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा डूब रहा है तो आप वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे ?

(क) जोर-जोर से 'बचाओ-बचाओ' की आवाज देंगे।

(ख) स्वयं उसे बचाने की कोशिश करेंगे।

## PART - IV

## निर्देश (Instructions) :

इसमें आपके व्यवहार से सम्बन्धित कुछ प्रश्न दिये गये हैं। इन प्रश्नों का कोई पूर्व निश्चित उत्तर नहीं है। इसलिए आपको जो उत्तर सही लगे, वही आपके लिए सही उत्तर होगा और वैसे ही उत्तर पर हाँ अथवा नहीं के नीचे बने खाने पर सही (✓) का चिह्न लगा दें। किसी भी प्रश्न को न छोड़ें।

क्र. सं.	कथन	हाँ	नहीं
71.	घर में माता-पिता नहीं रहने से क्या आपको डर लगता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	रास्ते में होने पर अचानक बत्ती (light) बुझ जाने से क्या आप परेशान हो उठते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	घर में झगड़ा होने से क्या आपकी परेशानी बढ़ जाती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	आपके घर के लोग यदि आपको लाने रेलवे स्टेशन पर देर से पहुँचते हैं तो क्या आप चिंतित हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	रात में अकेला जाने के नाम से ही क्या आपको डर लगने लगता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	दोस्तों के बीच रहकर भी क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	क्या आप दोस्तों के ऊपर भरोसा करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	क्या आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	क्या आप अपने वातावरण में पूरी तरह से समायोजित (adjusted) महसूस करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत-सी खुशी से वंचित हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81.	नये लोगों से परिचय होने पर क्या आपको घबड़ाहट होती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	क्या आपको लोगों से काफी प्रशंसा मिलती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	क्या आप अक्सर उदास रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84.	जरा-सी बात पर क्या आप दुखी हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85.	क्या आपको किसी प्रकार की प्रतियोगिता (competition) से डर नहीं लगता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## PART - V

## निर्देश (Instructions) :

नीचे दिये गए कथनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रत्येक कथन के सामने उसके दो-दो उत्तर अर्थात् 'सही' या 'गलत' दिये गये हैं। आप अपने लिये उनमें से जिसे उपयुक्त एवं ठीक समझते हैं, उस पर सही (✓) का चिह्न लगा दें। किसी भी प्रश्न को न छोड़ें।

क्र. सं.	कथन	सही	गलत
86.	मुझे लगता है कि मेरा व्यवहार परिपक्व है।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87.	मेरा सामान्य ज्ञान का भंडार पर्याप्त है।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88.	मैं जन्म ही कठिन समस्याओं का समाधान कर लेता हूँ।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89.	हमारी आकांक्षाएँ (aspirations) वास्तविक होती हैं।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90.	प्रगति के रास्ते में मुझे अक्सर कोई न कोई बाधा का सामना करना पड़ता है।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91.	मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक दिन हम अपने सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देंगे।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92.	कुछ लोग मेरी सफलता से बहुत हताश रहते हैं।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
93.	मेरी प्रत्याशाएँ (expectations) मेरी सफलता पर आधारित होती हैं।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94.	मुझे अपनी जिन्दगी में कभी असफलता हाथ नहीं लगी है।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95.	प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे ढंग से जिन्दगी में सफल होने का प्रयास करना चाहिए।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96.	मेरी सफलता हमेशा प्रभावी (effective) रही है।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97.	अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से मेरी भेंट नहीं हुई है जिसने हमारी उपलब्धियों की आलोचना की हो।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98.	मेरी व्यक्तिगत आदतें हमारी उपलब्धि में बाधक सिद्ध हुई हैं।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99.	मुझे प्रायः लगता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी बहुत थोड़ा ही प्राप्त हो पाता है।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100.	मेरी उपलब्धियाँ कुछ बिन्दु पर निश्चित रूप से आलोच्य होती हैं।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

रूकिए ! जब तक कहा न जाए पार्ट VI का उत्तर देना प्रारंभ न करें।

### PART - VI

समय: सिर्फ 10 मिनट

#### निर्देश (Instructions) :

नीचे कुछ ऐसे प्रश्न दिये गए हैं जिनके उत्तर आपसे वांछनीय हैं। आप प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिये गये उनके चार-चार उत्तरों में से सबसे सही एवं उपयुक्त उत्तर पर सही का चिह्न (✓) लगा दें। याद रखें कि इस भाग के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 10 मिनट के समय में ही देना है।

- |                           |             |                                     |              |                          |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 101. आरोप का अर्थ है      | (क) दोष     | <input type="checkbox"/>            | (ख) गुण      | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) लज्जा   | <input type="checkbox"/>            | (घ) पश्चाताप | <input type="checkbox"/> |
| 102. डरपोक का उल्टा है    | (क) कमजोर   | <input type="checkbox"/>            | (ख) झगड़ालू  | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) बहादुर  | <input type="checkbox"/>            | (घ) साहसी    | <input type="checkbox"/> |
| 103. किनारा का अर्थ है    | (क) बाँध    | <input type="checkbox"/>            | (ख) नदी      | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) तट      | <input type="checkbox"/>            | (घ) जल       | <input type="checkbox"/> |
| 104. लम्बा का उल्टा है    | (क) मोटा    | <input type="checkbox"/>            | (ख) छोटा     | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) नाटा    | <input type="checkbox"/>            | (घ) पहलवान   | <input type="checkbox"/> |
| 105. प्रभात का सम्बन्ध है | (क) उजाला   | <input type="checkbox"/>            | (ख) सूर्य    | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) किरण    | <input type="checkbox"/>            | (घ) रात      | <input type="checkbox"/> |
| 106. सेना का सम्बन्ध है   | (क) युद्ध   | <input type="checkbox"/>            | (ख) वायुयान  | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) राईफल   | <input checked="" type="checkbox"/> | (घ) सैनिक    | <input type="checkbox"/> |
| 107. आशा का उल्टा है      | (क) खुशी    | <input type="checkbox"/>            | (ख) निराशा   | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) दुःख    | <input type="checkbox"/>            | (घ) तकलीफ    | <input type="checkbox"/> |
| 108. उजाला का सम्बन्ध है  | (क) अन्धकार | <input type="checkbox"/>            | (ख) प्रकाश   | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) आकाश    | <input type="checkbox"/>            | (घ) सूर्य    | <input type="checkbox"/> |
| 109. गोरा का उल्टा है     | (क) काला    | <input type="checkbox"/>            | (ख) प्रकाश   | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) कुरूप   | <input type="checkbox"/>            | (घ) सुन्दर   | <input type="checkbox"/> |
| 110. आश्चर्य का अर्थ है   | (क) अनुभव   | <input type="checkbox"/>            | (ख) विस्मय   | <input type="checkbox"/> |
|                           | (ग) अचानक   | <input type="checkbox"/>            | (घ) क्षणिक   | <input type="checkbox"/> |

111. इनमें से किसका अन्य तीनों से मेल नहीं है ?  
 (क) रवीन्द्रनाथ टैगोर  (ख) प्रेमचन्द   
 (ग) दिनकर  (घ) महात्मा गाँधी
112. इनमें से किसका अन्य तीनों से मेल नहीं है ?  
 (क) कुर्सी  (ख) टेबुल   
 (ग) सोफा  (घ) चादर
113. मीठा का सम्बन्ध है  
 (क) चीनी  (ख) नमक   
 (ग) सेब  (घ) रस
114. कपड़ा का सम्बन्ध है  
 (क) दर्जो  (ख) काटना   
 (ग) पहनना  (घ) सिलना
115.  $\sqrt{16}$  के बराबर कौन है ?  
 (क)  $\sqrt{2}$   (ख)  $2^2$    
 (ग)  $4^3$   (घ)  $4^2$
116.  $3^3$  का बराबर क्या होगा ?  
 (क) 9  (ख) 6   
 (ग) 26  (घ) 27
117. प्यार का अर्थ है  
 (क) स्नेह  (ख) ममता   
 (ग) घृणा  (घ) मोह
118. 5, 7, 8, 10, 11, 13, ..... इन संख्याओं के आगे की संख्या क्या होगी ?  
 (क) 23  (ख) 14   
 (ग) 26  (घ) 23
119. 5, 10, 15, 20, 25, ..... इसके आगे की संख्या लिखें—  
 (क) 40  (ख) 30   
 (ग) 35  (घ) 45
120. 98, 90, 82, 80, 72, 64, ..... इन संख्याओं के क्रम के अनुसार आगे की संख्या लिखें—  
 (क) 55  (ख) 56   
 (ग) 62  (घ) 66
121. 102, 204, 408, 816, ..... इस क्रम के अनुसार आगे की संख्या लिखें—  
 (क) 1532  (ख) 1432   
 (ग) 1632  (घ) 1832
122. अशोक से अजय कम बुद्धिमान है। अरुण अशोक से भी अधिक बुद्धिमान है, तो सबसे बुद्धिमान कौन है ?  
 (क) अशोक  (ख) अरुण   
 (ग) अजय  (घ) कोई नहीं

123. हिनहिनाना : घोड़ा ; भौकना : (क) बिल्ली  (ख) कुत्ता   
 (ग) शेर  (घ) भालू
124. इन चार शब्दों में से किसका अन्य सभी से (क) दारका  (ख) मैसूर   
 कोई सम्बन्ध नहीं है ? (ग) वैष्णोदेवी  (घ) कन्याकुमारी
125. श्यामली किरण से सुन्दर है और किरण (क) अधिक सुन्दर  (ख) कुरूप   
 उषा से भी सुन्दर है तो श्यामली उषा से (ग) बराबर  (घ) साधारण   
 कितनी सुन्दर है ?
126. सर : टोपी ; पाव : (क) मोजा  (ख) जूता   
 (ग) पतलून  (घ) अँगूठी
127. किसी भी देश रेल की कई लाइनें होगी चाहिए जिसका कारण यह है कि—  
 (क) लोगों को आने जाने में तथा माल ढोने में सुविधा हो ।   
 (ख) इससे समय की बचत हो सके ।   
 (ग) इससे व्यापारियों का मुनाफा बढ़ सके ।   
 (घ) इससे वस्तुओं की कीमत ऊँचा न हो ।
128. बिल्ली एक लाभदायक पशु है क्योंकि—  
 (क) वह दूध पीती है ।   
 (ख) वह चूहों का सफाया करती है ।   
 (ग) वह कुत्ते से डरकर भाग जाती है ।   
 (घ) वह अपनी आवाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है ।
129. जूते चमड़े के बने इसलिये होते हैं क्योंकि—  
 (क) चमड़ा सभी देशों में उपलब्ध होता है ।   
 (ख) चमड़े का ब्रत आरामदेह होता है ।   
 (ग) चमड़े का जूड़ा पहनने से किसी प्रकार की बीमारी के होने की सम्भावना नहीं होती है ।   
 (घ) चमड़े का जूला बनाना आसान होता है ।
130.  $\frac{4}{2} \times \frac{6}{2} \times \frac{6}{2} \times \frac{0}{2} \times \frac{4}{6}$  बराबर (क) 3  (ख) 6   
 कितना होगा ? (ग) 4  (घ) 0



A. K. SINGH (Patna)  
A. SEN GUPTA (Patna)

**निर्देश**  
(INSTRUCTIONS)

- जब तक आपसे कहा न जावे, पृष्ठ न पलटें।
- इस पुस्तिका के किसी भी भाग पर कुछ न लिखें।
- इस पुस्तिका में कुछ प्रश्न आपसे सम्बन्धित हैं, अतः आप अपने द्वारा दिए गए उत्तरों को अलग उत्तर-सूची (answer sheet) पर दें।
- उत्तर-सूची में आपको प्रत्येक प्रश्न की संख्या के सामने दो खाने मिलेंगे, आपकी ओर से बायीं तरफ वाला खाना 'हाँ' उत्तर का तथा दायीं तरफ वाला खाना 'नहीं' उत्तर का संकेत-सूचक है। इन दोनों खानों में से आपको किसी एक, जोकि आपके लिए उपयुक्त होता हो, पर एक सही का चिह्न (✓) लगाना है। यह ध्यान रहे कि कोई भी प्रश्न गलत या सही नहीं है। जो आपके सम्बन्ध में सही है केवल उसी पर सही का चिह्न लगाना है। यदि आपका उत्तर 'हाँ' है तो बायीं ओर वाले खाने में तथा यदि आपका उत्तर 'नहीं' है तो दायीं ओर वाले खाने में सही का चिह्न (✓) लगाइए।
- आपके उत्तरों को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जावेगा इसलिए बिना किसी संकोच के उत्तर दीजिए।
- यद्यपि समय की कोई सीमा नहीं है; फिर भी आप कोशिश करें जितना शीघ्र हो सके काम समाप्त करें।

**अंकुर साइकोलॉजिकल एजेन्सी**

22/481, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 16

1. (अ) क्या आप अपने माता-पिता की अपेक्षा परिवार के अन्य सदस्यों को ज्यादा प्यार देते हैं ?
2. (ब) क्या आप बीमारी की वजह से अक्सर स्कूल नहीं जा पाते हैं ?
3. (स) क्या आपको शादी-विवाह आदि सामाजिक उत्सवों में जाना अच्छा लगता है ?
4. (द) जरा-सी बात पर क्या आप रोना प्रारम्भ कर देते हैं ?
5. (य) क्या आप रोज स्कूल जाना पसन्द करते हैं ?
6. (अ) क्या आपका अपने भाई-बहनों से प्रायः झगड़ा हो जाता है ?
7. (ब) क्या आपको बहुत जल्दी छूत (infection) की बीमारी हो जाती है ?
8. (स) क्या आप अजनबी व्यक्ति से बहुत जल्दी मित्रता कर लेते हैं ?
9. (द) लोगों के बीच होते हुए भी क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं ?
10. (य) शिक्षक द्वारा कुछ काम करने के लिए कहे जाने पर कक्षा में क्या आप आगे रहते हैं ?
11. (अ) क्या आपके घर का वातावरण शान्तिपूर्ण है ?
12. (ब) क्या आपको अक्सर सर्दी हो जाती है ?
13. (स) किसी सामाजिक उत्सव में क्या आप प्रमुख व्यक्तियों से मिलना पसन्द करते हैं ?
14. (द) क्या किसी बात पर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ?
15. (य) शिक्षक द्वारा कक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाने पर क्या आप खड़े होकर उत्तर देने से हिचकिचाते हैं ?
16. (अ) क्या आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि घर के लोग आपको कम प्यार करते हैं ?
17. (ब) क्या बचपन में आपको कोई भयंकर बीमारी हुई थी ?
18. (स) क्या आप उदासी के वातावरण में भी लोगों का दिल बहला लेते हैं ?
19. (द) क्या अक्सर आप अपने को निराशा में डूबा हुआ पाते हैं ?
20. (य) परीक्षा में कुछ प्रश्न अगर आपकी समझ में नहीं आते हैं तो क्या आप दूसरे विद्यार्थी से पूछते हैं ?
21. (अ) क्या आपके घर में जरूरत की करीब-करीब सभी चीजें उपलब्ध (मीजुब) हैं ?
22. (ब) क्या आप प्रायः थका सा महसूस करते हैं ?
23. (स) जब सभा आरम्भ हो जाए तो क्या आप वहाँ जाने में हिचकिचाते हैं ?
24. (द) क्या बिजली के मात्र कौंधने से ही आप डर जाते हैं ?
25. (य) परीक्षा का समय निकट आते ही क्या आपको डरावना स्वप्न आने लगता है ?

26. (अ) आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं क्या आपके परिवार के लोग उन्हें स्वीकार करते हैं ?
27. (ब) क्या आपका वजन उम्र के अनुसार कम है ?
28. (स) किसी प्रतियोगिता में भाग लेने में क्या आपको हिचकिचाहट महसूस होती है ?
29. (द) अँधेरी जगह पर जाने से क्या आप बहुत घबड़ाते हैं ?
30. (य) स्कूल के अनुशासन से क्या आप ऊब जाते हैं ?
31. (अ) छोटी सी गलती करने पर भी क्या आपको घरवालों से डाँट पड़ती है ?
32. (ब) क्या आपको अक्सर कब्जीयत की शिकायत रहती है ?
33. (स) क्या अजनबी व्यक्ति के साथ बात पुरु करने में कठिनाई होती है ?
34. (द) क्या आप यह सोचकर परेशान रहते हैं कि सबकी नजर आपकी ओर है ?
35. (य) अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आदि विषयों की कक्षा में क्या आपको कठिनाई होती है ?
36. (अ) क्या आप अपने छोटे या बड़े भाई-बहनों को प्यार करते हैं ?
37. (ब) क्या रात में अक्सर आपको नींद नहीं आती है ?
38. (स) क्या आप सामाजिक समारोह में भाग लेना पसन्द करते हैं ?
39. (द) भूकम्प आने या आग लगने की कल्पना मात्र से ही क्या आप भयभीत हो जाते हैं ?
40. (य) प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा बुलाए जाने पर क्या आपको बहुत डर लगता है ?
41. (अ) किसी के द्वारा आप पर गलत आरोप लगाये जाने पर क्या आपके माता-पिता बिना कुछ सोचे-समझे आपको डाँटते हैं ?
42. (ब) क्या आपको टॉन्सिल की शिकायत है ?
43. (स) क्या आपको किसी सभा में भाषण देने या मंच पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है ?
44. (द) अपने घर में क्या माता-पिता की हुकूमत से आप परेशान रहते हैं ?
45. (य) वर्ग-शिक्षक के साथ क्या आप अपनी परेशानियों के बारे में वैज्ञानिक बात कर सकते हैं ?
46. (अ) क्या आपके माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्य आपको बड़ा न समझकर आपके साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार करते हैं ?
47. (ब) क्या आप थोड़ा दूर पैदल चलने से ही काफी थक जाते हैं ?
48. (स) क्या आप लड़कों/लड़कियों से बिना झिझक बात कर सकते हैं ?
49. (द) देश में युद्ध होने की सम्भावना से ही क्या आप बहुत घबड़ा जाते हैं ?
50. (य) परीक्षा के समय प्रश्नपत्र मिलने से पहले, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ भूल गए हैं ?

51. (अ) क्या आपके परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर झगड़ा होता है ?
52. (ब) क्या आप पावर का चश्मा पहनते हैं ?
53. (स) आपके घर अगर कोई मिलने जाता है तो क्या आप उससे मिलने में हिचकिचाते हैं ?
54. (द) अपनी आलोचना सुनते ही क्या आप अपना संतुलन खोने लगते हैं ?
55. (य) आपके पास किताब खरीदने को पैसा न रहने से क्या आप दोस्तों से किताब मांग लेते हैं ?
56. (अ) घर का काम कैसे करें, क्या इस बात को लेकर अक्सर आपको अपने घरवालों से मतभेद होता है ?
57. (ब) क्या आप बहुत घीमी आवाज भी सुन लेते हैं ?
58. (स) क्या लोगों के साथ नाच-गाने में भाग लेने में आपको बहुत मजा आता है ?
59. (द) दूसरों को खुश देखकर क्या आपको ईर्ष्या होती है ?
60. (य) रुखा में जब पढ़ाई होती है तो क्या आप बहुत ध्यान से सुनते हैं ?
61. (अ) घर में झगड़ा शान्त करने के लिए, क्या आप सक्रिय भाग लेते हैं ?
62. (ब) क्या आपको दाँत में प्रायः दर्द रहता है ?
63. (स) बहुत से लोगों के सामने कुछ कहने में क्या आपको बहुत कठिनाई महसूस होती है ?
64. (द) किसी काम को करते-करते क्या आप बहुत जल्दी निरुत्साहित हो जाते हैं ?
65. (य) क्या आप गृह-कार्य (home work) को नियमित रूप से करके शिक्षक को दिखाते हैं ?
66. (अ) माता या पिता के व्यवहार से क्या आपको चिन्ता हुई है ?
67. (ब) क्या आपको हमेशा कमजोरी महसूस होती है ?
68. (स) क्या आप आसानी से सभी व्यक्तियों के साथ बेझिझक अपना विचार प्रकट कर सकते हैं ?
69. (द) क्या आप अपने किए पर हमेशा पछताते हैं ?
70. (य) अगर शिक्षक क्लास-टैस्ट (class test) लेने के लिए कहें, तो क्या आप उस दिन स्कूल भी नहीं जाते हैं ?
71. (अ) माता या पिता के कार्यों से क्या आपको कभी परेशान होना पड़ा है ?
72. (ब) क्या आपको कभी किसी कारण से आपरेशन कराना पड़ा है ?
73. (स) क्या आप शर्मिलिपन की वजह से अक्सर परेशानी में पड़ जाते हैं ?
74. (द) ऊँची जगह पर चढ़ने से क्या आपको यह डर लगा रहता है कि कहीं आप गिर न जायें ?
75. (य) स्कूल बन्द रहने के दिन आप ज्यादा खुश रहते हैं ?

76. (अ) माता या पिता की आदतों से क्या आप में गुस्सा आ जाता है ?
77. (ब) क्या आपका वजन उम्र के हिसाब से ज्यादा है ?
78. (स) क्या आप बहुत से व्यक्तियों के साथ मेल-जोल रखना पसन्द करते हैं ?
79. (द) क्या आप अपने को अक्सर असहाय महसूस करते हैं ?
80. (य) स्कूल में दोस्तों के साथ क्या आप हमेशा मिल-जुलकर रहते हैं ?
81. (अ) क्या आपके माता-पिता आपको जरूरत के अनुसार प्यार देते हैं ?
82. (ब) क्या आपको हृदय, फेफड़े आदि की बीमारी हुई है ?
83. (स) क्या आप अपना विचार किसी और को व्यक्त करते समय बहुत आत्म-सचेत (self conscious) हो जाते हैं ?
84. (द) क्या आप अपनी शकल-सूरत के कारण परेशान रहते हैं ?
85. (य) अचानक किसी लड़के/लड़की की तबितय वर्ग में खराब हो जाए तो क्या आप तुरन्त वर्ग-शिक्षक के पास ले जाते हैं ?
86. (अ) क्या माँ के साथ आपका सम्बन्ध अच्छा रहता है ?
87. (ब) क्या आपको कभी चर्म-रोग हुआ है ?
88. (स) अगर किसी से आपका तुरन्त परिचय हुआ है तो क्या आपको यह समझ में नहीं आता कि उससे क्या बातचीत करें ?
89. (द) क्या आप बहुत थोड़ी-सी बात पर दुःखी हो जाते हैं ?
90. (य) अगर कोई नया शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए आते हैं तो क्या आप उनकी नज़र उतार कर अपने साथियों को हँसाने की कोशिश करते हैं ?
91. (अ) क्या आपके माता-पिता में अक्सर किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई होती रहती है ?
92. (ब) क्या आपके शरीर में रक्त की कमी रहती है ?
93. (स) क्या आप किसी सामाजिक कार्य का दायित्व लेते हैं ?
94. (द) क्या आप यह सोचकर परेशानी महसूस करते हैं कि दूसरे लोग आपके भावों को जान जाते हैं ?
95. (य) क्या आप अपने क्लास टीचर की बात मानते हैं ?
96. (अ) क्या माता-पिता आपको प्रायः डांटते रहते हैं ?
97. (ब) क्या आपको उल्टी या दस्त की शिकायत रहती है ?
98. (स) क्या आपके घर में हमेशा परिचितों का आना-जाना लगा रहता है ?
99. (द) क्या आप हमेशा बेकार की बातें सोचते रहते हैं ?
100. (य) क्या आप अपने प्रिंसिपल का सम्मान करते हैं ?

101. (अ) क्या आप अपना अधिकतर कार्य अपने माता-पिता से पूछकर करते हैं ?
102. (ब) क्या आपको कभी-कभी पेट में बहुत दर्द होता है ?
103. (स) क्या पढ़ाईसियों के साथ मिलकर किसी सांस्कृतिक कार्यभार के दायित्व को निभाना पसन्द करेंगे ?
104. (द) अपने शिक्षक के आपके घर अचानक आने से क्या आपको घबड़ाहट महसूस होती है ?
105. (य) क्या आप स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने में घबड़ाते हैं ?
106. (अ) क्या आपके माता-पिता आपके व्यवहार से जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ?
107. (ब) क्या आपको हमेशा अपच की शिकायत रहती है ?
108. (स) क्या आप किसी सामाजिक योजना बनाने में आगे रहते हैं ?
109. (द) क्या आप किसी बात पर जल्द घबड़ा जाते हैं ?
110. (य) स्कूल की प्रतियोगिताओं में क्या आप प्रायः आगे रहते हैं ?
111. (अ) क्या आपके माता-पिता कभी-कभी आपकी निन्दा करते हैं ?
112. (ब) ज्यादा थक जाने से क्या आपको नींद नहीं आती है ?
113. (स) बहुत सारे व्यक्तियों के बीच क्या आप अपना विचार प्रकट करने में असमर्थ रहते हैं ?
114. (द) अपमानजनक अनुभव होने पर क्या आप बहुत परेशान हो जाते हैं ?
115. (य) स्कूल में अगर किसी नाटक में भाग लेने के लिए कहा जाए तो क्या आप उसके लिए तुरन्त राजी हो जाते हैं ?
116. (अ) क्या घर के लोगों के प्रति आपके मन में घृणा और प्यार का भाव एक साथ आता है ?
117. (ब) क्या आपमें हमेशा स्फूर्ति की कमी रहती है ?
118. (स) बस या रेल में सफर करते समय क्या आप दूसरे सहायत्रियों से बहुत जल्दी हिलमिल जाते हैं ?
119. (द) क्या बिना किसी वजह के आपकी मनोदशा (mood) में उतार-चढ़ाव होता रहता है ?
120. (य) स्कूल की परीक्षाओं में क्या आप हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करते हैं ?
121. (अ) क्या आपको यह महसूस होता है कि घर के अधिकतर लोग आपको दुलार-प्यार देते हैं ?
122. (ब) क्या आपको अक्सर चक्कर आते हैं ?
123. (स) क्या दूसरे व्यक्ति से आप बिना शिक्षक सहायता माँग लेते हैं ?
124. (द) क्या आपको चिन्ता के कारण अक्सर नींद नहीं आती है ?
125. (य) अगर आप किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो क्या आप अपना प्रोग्रेस-रिपोर्ट घर में दिखाने से डरते हैं ?

126. (अ) क्या आपके माता-पिता आपके द्वारा घर में किए गए सभी व्यवहारों पर नजर रखते हैं ?
127. (ब) क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ने पर हाँफने लगते हैं ?
128. (स) दूसरे व्यक्तियों की सहायता करने में क्या आप सक्रिय भाग लेते हैं ?
129. (द) किसी कमरे में अकेले प्रवेश करने से क्या आपको डर लगता है ?
130. (य) क्या आपको स्कूल की पढ़ाई एक बोझ के समान लगती है ?
131. (अ) क्या आपके माता-पिता आपको अकेला छोड़कर घर से बाहर घूमने चले जाते हैं ?
132. (ब) सुबह उठते समय भी क्या आप थकान महसूस करते हैं ?
133. (स) क्या आप किसी सामाजिक कार्य में नेता बनना पसन्द करते हैं ?
134. (द) गलत काम करने से माता-पिता द्वारा डाँटे जाने पर क्या आपको महसूस होता है कि जीना ही बेकार है ?
135. (य) क्लास में जो पढ़ाई होती है उसे क्या आप हर रोज घर जाकर दोहराते हैं ?
136. (अ) आपको थोड़ी सी तकलीफ होने पर क्या आपके माता-पिता बहुत घबड़ा जाते हैं ?
137. (ब) क्या आप हमेशा तरोताजा अनुभव करते हैं ?
138. (स) क्या आप बहुत दोस्तों के बजाय कुछ ही सच्चे मित्रों के साथ मित्रता रखना ज्यादा पसन्द करते हैं ?
139. (द) माता या पिता के बीमार होने से क्या आप बहुत घबड़ा जाते हैं ?
140. (य) क्या आपको मॉनीटर (monitor) से प्रायः शिकायत रहती है ?
141. (अ) माता या पिता के बीमार हो जाने से आप इतना चिन्तित हो जाते हैं कि आपकी परेशानी काफी अधिक बढ़ जाती है ?
142. (ब) क्या आप बीमार पड़ने पर तुरन्त ठीक हो जाते हैं ?
143. (स) किसी पार्टी या प्रीतिभोज में क्या आप अक्सर यह कोशिश करते हैं कि लोगों का ध्यान आपकी ओर जाए ?
144. (द) साँप देखने से ही क्या आप बहुत डर जाते हैं ?
145. (य) भूगोल के वर्ग में क्या आपको मानचित्र (map) बनाने में बहुत मन लगता है ?
146. (अ) क्या आपको अपने भाई-बहनों से अधिक प्यार मिलता है ?
147. (ब) क्या आपको नाक से साँस लेने में अक्सर कठिनाई होती है ?
148. (स) अगर आप किसी सभा में बैठे हैं तो क्या बीच में उठकर जाने में आपको हिचकिचाहट महसूस होती है ?
149. (द) किसी का खून बहते देखकर क्या आप काफी घबड़ा जाते हैं ?
150. (य) विज्ञान का विषय समझने में क्या आपको कठिनाई होती है ?